



Date: 01/07/2020

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051

Sub.: Newspaper publication given pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref.: PC Jeweller Limited (Scrip Code: 534809, Symbol: PCJEWELLER)

Dear Sir / Madam,


Please find enclosed herewith the newspaper publication made by the Company pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on July 1, 2020 in Mint (English) and Hindustan (Hindi) regarding audited financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2020.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours sincerely,

For PC Jeweller Limited


New Delhi
(VIJAY PANWAR)
Company Secretary

Encl.: As above

PC Jeweller Limited

REGD. & CORPORATE OFF: C - 54, PREET VIHAR, VIKAS MARG, DELHI - 110 092 PH: 011 - 49714971 FAX 011 - 49714972

info@pcjeweller.com • www.pcjeweller.com • CIN: L36911DL2005PLC134929

Hong Kong gets a new national security law, approved by China

Hong Kong leader Carrie Lam welcomed the law and said it would come into effect later on Tuesday

Clare Jim & Yew Lun Tian
HONG KONG/BEIJING

China's parliament passed national security legislation for Hong Kong on Tuesday, setting the stage for the most radical changes to the former British colony's way of life since it returned to Chinese rule 23 years ago.

Details of the law—which comes in response to last year's often-violent pro-democracy protests in the city and aims to tackle subversion, terrorism, separatism and collusion with foreign forces—were yet to be released.

Hong Kong leader Carrie Lam nevertheless welcomed the law's passage and said it would come into effect later on Tuesday, giving the city's 7.5 million people little time to digest what is expected to be highly complex legislation.

Amid fears the law will crush the global financial hub's freedoms, and reports that the heaviest penalty under it would be life imprisonment, pro-democracy activist Joshua Wong's Demosisto group said it



Hong Kong leader Carrie Lam, in a video message to the UN Human Rights Council, urged the international community to 'respect our country's right to safeguard national security'.

would dissolve.

"It marks the end of Hong Kong that the world knew before," Wong said on Twitter. The legislation pushes Beijing further along a collision course with the US, Britain and other Western governments, which have said it erodes the high degree of

autonomy the city was granted at its July 1997 handover.

The US, already in dispute with China over trade, the South China Sea and the coronavirus, began eliminating Hong Kong's special status under US law on Monday, halting defence exports and

restricting technology access.

Lam, in a video message to the United Nations Human Rights Council in Geneva, urged the international community to "respect our country's right to safeguard national security".

She said the law would not undermine the city's autonomy or its independent judiciary. Authorities in Beijing and Hong Kong have repeatedly said the legislation is aimed at a few "troublemakers" and will not affect rights and freedoms, nor investor interests.

The editor-in-chief of the *Global Times*, a tabloid published by the *People's Daily*, the official newspaper of China's ruling Communist Party, said on Twitter the heaviest penalty under the law was life imprisonment.

As the law was passed in Beijing, the Chinese People's Liberation Army garrison in Hong Kong held a drill which included exercises to stop suspicious vessels and arrest fugitives, according to the Weibo social media account of state-run CCTV's military channel.

Johnson vows new deal to rebuild Britain

Bloomberg
feedback@livemint.com

Boris Johnson is setting out his vision for dragging the UK economy out of what may be its deepest recession in 300 years, with a programme to spend billions of pounds on infrastructure to build back to prosperity.

In a major speech on Tuesday, the UK prime minister confirmed his commitment to long-term investment in some of the country's most deprived regions, arguing that balancing the books must wait until recovery is secure.

Reprising spending pledges he made before December's general election, Johnson's office announced the acceleration of £5 billion investment in roads, schools and hospitals and promised to publish a strategy for further capital spending in the fall. "We cannot continue simply to be prisoners of this crisis," Johnson said in a speech in Dudley, central England on Tuesday. "We must work fast because we have already seen the vertiginous drop in GDP and we know that our people are worried about their jobs and their

businesses." The prime minister said he will not repeat the austerity policies his party imposed after the 2008 financial crisis. "We are not going to chase pence our way out of trouble," he said.

He is comparing his programme to President Franklin Delano Roosevelt's "New Deal," which used government spending to help the US out of the Great Depression in the 1930s. Johnson is trying to borrow some of Roosevelt's optimism but his program is falling short of the original in economic terms. Total spending over the course of the New Deal was about 40% of US output in 1929, according to the St Louis Fed. The £5 billion pounds outlaid by Johnson so far is a little more than 0.2% of the UK GDP in 2019—albeit over a shorter time-frame.

Johnson won a commanding 80-seat Parliamentary majority by promising to "level-up" left behind parts of the UK with spending on infrastructure and skills. But his plans were blown off course as ministers battled the pandemic, which has killed 43,755 people and plunged the economy into recession.



Gen X keek to go back to office, millennials want to wait
LinkedIn
bit.ly/3gc9u1t

REUTERS

Highest ever throughput of 885 TBTU at Dahej Terminal in FY 2019-20

Highest ever throughput of 928 TBTU by the Company in FY 2019-20

Highest ever PAT of ₹ 2,698 Cr in FY 2019-20

Ushering of a Green Fuel Movement

Extract of Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2020 (₹ in lac)

S.No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
		31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19
1	Total income from operations (net)	8,56,715	8,38,320	35,45,200	38,39,543	8,56,715	8,38,320	35,45,200	38,39,543
2	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	48,625	65,451	3,18,271	3,23,358	50,043	67,969	3,18,646	3,30,871
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	48,625	65,451	3,11,065	3,23,358	50,043	67,969	3,11,640	3,30,871
4	Net Profit from ordinary activities after tax	35,902	44,020	2,69,760	2,15,543	37,320	46,538	2,70,335	2,23,056
5	Other Comprehensive Income	(237)	(150)	(237)	(150)	(278)	(204)	(283)	(203)
6	Total Comprehensive Income	35,665	43,870	2,69,523	2,15,393	37,042	46,334	2,70,052	2,22,853
7	Equity share capital	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
8	Other Equity (excluding revaluation reserve)	9,45,297	8,56,607	9,45,297	8,56,607	9,62,092	8,73,058	9,62,092	8,73,058
9	Earnings per share (Face value of ₹ 10/- each)								
	a) Basic (₹)	2.39	2.93	17.98	14.37	2.49	3.10	18.02	14.87
	b) Diluted (₹)	2.39	2.93	17.98	14.37	2.49	3.10	18.02	14.87
		(not annualised)	(annualised)	(not annualised)	(annualised)				

Notes:
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 29 June 2020. The Statutory auditors of the Company have carried out audit of the aforesaid results.
2. The above is an extract of the detailed format of the Statements of Audited Standalone and Consolidated Financial Results, for the quarter and year ended 31 March 2020, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (listing and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statements of Audited Standalone and Consolidated Financial results are available on the website of National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange and the website of the company (www.petronetng.com).

Place: New Delhi
Date: 29th June, 2020

By order of the Board
V.K. Mishra
Director (Finance)
DIN: 08125144

CIN: L74899DL 1998PLC093073
World Trade Center, 1st Floor, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi - 110001
www.petronetng.com

304 - 3rd Floor, World Trade Centre, Babar Road, Connaught Place, New Delhi - 110001, INDIA Tel. : +91-11-23415512
Email : info@petronetngfoundation.org
Website : www.petronetngfoundation.org CIN : UBS320DL2017NPL315422

PC Jeweller Limited

Extract of audited consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2020

S. No.	Particulars	₹ in crores		
		Quarter Ended 31.03.2020	Year Ended 31.03.2020	Quarter Ended 31.03.2019
		Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	914.67	5206.77	2247.59
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(50.19)	125.32	(530.92)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(50.19)	125.32	(530.92)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(38.15)	83.04	(392.22)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(28.78)	96.49	(381.56)
6.	Equity Share Capital	395.00	395.00	394.65
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	3608.02	-
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each)	(Not annualized)	(Annualized)	(Not annualized)
	1. Basic (₹)	(0.97)	2.10	(0.94)
	2. Diluted (₹)	(0.97)	2.10	(0.94)

Key figures of audited standalone financial results: (₹ in crores)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2020	Year Ended 31.03.2020	Quarter Ended 31.03.2019
		Audited	Audited	Audited
		1.	Total Income from Operations	876.86
2.	Net Profit for the period before tax	(54.08)	123.54	(514.55)
3.	Net Profit for the period after tax	(40.89)	79.35	(376.47)

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended March 31, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year ended March 31, 2020 are available on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the Company at the URL: https://corporate.pcjeweller.com/financial-results-and-annual-report/.
2. Details of Audit Qualification (Standalone): As explained in note 5 to the accompanying Statement, the Company during the previous year ended 31 March 2019 had provided discounts of ₹513.65 crore to its export customers which had been adjusted against the revenues for the said year. The Company had initiated the process of complying with the requirements of the Master Circular on Exports of Goods and Services issued by the Reserve Bank of India and had filed the necessary applications with the appropriate authority for approval of such discounts, which is a prerequisite, under the Foreign Exchange Management Act, 1999. Subsequently, the Company has obtained the approvals from the authorized dealer banks for reduction in receivables corresponding to discounts amounting to ₹89.69 crore. For the remaining discounts of ₹423.96 crore, in the absence of requisite approvals and material evidence related to such transactions, we are unable to comment on the impact, if any, of the same on the accompanying Statement. Our opinion for the year ended 31 March 2019 and conclusion for the quarter ended 31 December 2019 were also qualified in respect of this matter.
3. Details of Audit Qualification (Consolidated): As explained in note 6(a) to the accompanying Statement, the Holding Company during the previous year ended 31 March 2019 had provided discounts of ₹513.65 crore to its export customers which had been adjusted against the revenues for the said year. The Holding Company had initiated the process of complying with the requirements of the Master Circular on Exports of Goods and Services issued by the Reserve Bank of India and had filed the necessary applications with the appropriate authority for approval of such discounts, which is a prerequisite, under the Foreign Exchange Management Act, 1999. Subsequently, the Holding Company has obtained the approvals from the authorized dealer banks for reduction in receivables corresponding to discounts amounting to ₹89.69 crore. For the remaining discounts of ₹423.96 crore, in the absence of requisite approvals and material evidence related to such transactions, we are unable to comment on the impact, if any, of the same on the accompanying Statement. Our opinion for the year ended 31 March 2019 and conclusion for the quarter ended 31 December 2019 were also qualified in respect of this matter.
The following qualified opinion has been included in the auditor's report on the financial statements of PC Jeweller Limited, a subsidiary of the Holding Company, audited by an independent firm of Chartered Accountants, vide its auditor's report dated 28 June 2020, for a similar matter, which is reproduced by us as under:
As explained in note, note 6(b) to the accompanying Statement, the Company has provided discounts of ₹4.75 crore to export customers adjusted against revenues for the year ended 31 March 2020. The Company is in the process of complying with the requirements of the Master Circular on Exports of Goods and Services issued by the Reserve Bank of India and has filed the necessary applications with the appropriate authority for approval of such discounts, which is a prerequisite, under the Foreign Exchange Management Act, 1999. In the absence of such approval and material evidence related to the transaction, we are unable to comment on the impact, if any, of the same on the financial statements.

For and on behalf of the Board
PC Jeweller Limited
Sd/-
Balraj Garg
(Managing Director)
DIN: 00032083

Place: New Delhi
Date: June 29, 2020

Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110092. CIN: L36911DL2005PLC134929
Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972, Website: www.pcjeweller.com, e-mail: investors@pcjeweller.com

Business of Life

Daily articles on the workplace, and how it is evolving.

To get your MINT copy, give a missed call on 703035039 or visit www.mintreaders.com or write to us at subscription@livemint.com

New Okhla Industrial Development Authority

Administrative Building, Sector-6, Noida G B Nagar, (U.P.)
Website: www.noidaauthorityonline.com

E-TENDER NOTICE

E-Tender are invited from firms/contractors registered with UPLC Lucknow for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & <http://etender.up.nic.in>. Please ensure to see these websites for any changes / amendments / corrigendum etc.

(A) 1. 11/GM(K)/SM-WC-6/ET/2020-21, Name of Work- D/O PRATHALA CHOWK (CONSTRUCTION OF FLYOVER ON MASTER PLAN ROAD NO. 3 AT PRATHALA CHOWK), NOIDA, (UP) Cost - Rs. 8093.36 Lacs

Which can be uploaded by date 21.07.2020 upto 5.00 PM. Pre-qualification shall be opened / downloaded on date 22.07.2020 at 11.00 AM. Pre bid/Meeting to be held on dated 08.07.2020 at 3.00 PM, in the office of the General Manager (K), Sector-6, Noida.

General Manager, Noida
CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

JAIPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(A Public Limited Company)
A- Wing, Admin Building, Metro Depot, Jaipur Metro Station, Jaipur 302020
Email: metro@jmrail.com, metro@jmrail.co.in, Telephone: 0141-2622722

NOTICE INVITING BIDS

JMRail invites online bids from eligible bidders for Licencing for Station Branding (Jain Naming Rights of Railway Station) for the period of 15 (Fifteen) years commencing from 01.07.2020 to 31.06.2035. The bid conference will be held on 08.07.2020 at 11:30 am at Room No. A-206, Admin Building, Metro Depot, Jaipur Metro Station. The interested bidders are requested to attend the bid conference. Last date for submission of bids is 05.08.2020 upto 10:00 hrs. For further details, please visit the website: www.jmrail.com or www.jmrail.com or www.jmrail.com. The successful bidder shall be issued the necessary order. The successful bidder shall be issued the necessary order. The successful bidder shall be issued the necessary order.

Executive Director (Corp. Affairs)
Jaipur Metro Rail Corporation Limited

